



Kajaria

March 21, 2020

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Dear Sirs,

Sub: Publication of Notice for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund ('IEPF')

We enclose copies of the newspaper clippings of the Notice published on March 21, 2020 in the following newspapers regarding transfer of equity shares of the Company to IEPF Authority in accordance with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

1. Business Standard (English); and
2. Business Standard (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours' Faithfully,
For Kajaria Ceramics Limited

R.C. Rawat
COO (A&T) & Company Secretary



Encl.: as above

Kajaria Ceramics Limited

Corporate Office : J1/B1 (Extn.), Mohan Co - op Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044, Ph.: +91-11-26946409 | Fax: +91-11- 26946407
Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon-122001, Haryana, Ph.: +91-124-4081281
CIN No. : L26924HR1985PLC056150, E-mail: info@kajariaceramics.com | Web.: www.kajariaceramics.com

Court sends Rana Kapoor to judicial custody till April 2

SUBRATA PANDA
Mumbai, 20 March

The session's court in Mumbai on Friday sent Rana Kapoor, former managing director (MD) and chief executive officer (CEO) of YES Bank, to judicial custody till April 2. This came after the Enforcement Directorate (ED) submitted before the court that it does not need Kapoor's custody any further.

The Central Bureau of Investigation (CBI) has also moved a production warrant to take Kapoor into custody.

The CBI had filed a case against Kapoor for allegedly obtaining illegal gratification by acquiring a property in Delhi from Gautam Thapar's Avantha group. In exchange, YES Bank waived the industrial house's dues and advanced new loans.

Earlier, Kapoor's ED custody was extended by four days to March 20 while the ED had asked for a six-day custody. The former banker was arrested on March 8 by the ED under the provisions of Prevention of Money Laundering Act and was since in the ED's custody. Kapoor told the court on Friday that he was suffering from asthma, and because of his age, he is vulnerable to coronavirus. The court has asked the jail authorities to take appropriate precautions on this count.

Meanwhile, a number of high-profile corporate promoters were summoned by the probe agency, including Anil Ambani, Naresh Goyal, Kapil and Dheeraj Wadhawan,



YES Bank co-founder Rana Kapoor at the Arthur Road Jail in Mumbai on Friday

PHOTO: KAMLESH PEDNEKAR

Subash Chandra and Sameer Gehlaut in connection with the YES Bank case. Anil Ambani was questioned by the ED on Thursday and asked to furnish some important details which are crucial for the case, said an ED officer. Ambani's Reliance group is among the largest borrowers of the bank, with an exposure of around ₹1,300 crore.

Ambani sought more time from the agency to provide further clarifications on some specific queries. The probe agency has asked him to appear again on March 30. Other big defaulters of YES Bank, who had been summoned by the ED to appear this week, did not show up.

During investigations, the probe agency found that a loan of ₹202 crore was sanctioned to Mack Star Marketing, which is a joint venture among HDIL promoters Sarang Wadhawan & Rakesh Wadhawan, former PMC Bank chairman Waryam

Singh and the De Shaw group. The first three hold only 16.64 per cent shares in the entity while the De Shaw group holds majority stake. The ED found that the loan of ₹202 crore, sanctioned to Mack Star Marketing, was used by HDIL to pay off loans. The loan was sanctioned to the entity with the specific purpose of renovating its office building.

Further investigations have revealed that about 78 companies owned by Kapoor's family members were being controlled and managed by Kapoor himself. The ED has also found that YES Bank had bought debentures of Dewan Housing Finance (DHFL) worth ₹3,700 crore while the latter gave a loan to a firm owned by Kapoor's daughters for ₹600 crore.

Both the transactions were suspicious as the company owned by Kapoor's daughters did not have sufficient businesses or assets.

Gopalakrishnan, R Gandhi named additional directors

SUBRATA PANDA
Mumbai, 20 March

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday appointed R Gandhi and Ananth Narayan Gopalakrishnan additional directors to the board of crisis-hit YES Bank for a period of two years.

This will be R Gandhi's second stint as an additional director on the private sector lender's board. The former deputy RBI governor's first term was to expire in May 2021 but the central bank superseded the previous board of YES Bank earlier this month.

Gopalakrishnan, an associate professor at SP Jain Institute of Management and Research, is an international banking and financial markets expert. He was previously Standard Chartered Bank's regional head of financial markets for ASEAN and South Asia.

According to the YES Bank reconstruction scheme, the government had constituted a four-member board. Prashant Kumar, the current administrator of the bank, was appointed the managing director and chief executive officer. Sunil Mehta, former non-executive chairman of PNB, was named the non-executive chairman of the bank.

SBI to provide ad hoc loan to users affected by COVID-19

State Bank of India (SBI) will provide emergency loans at 7.25 per cent (per annum) fixed rate of interest to existing borrowers whose operations are impacted by COVID-19. The scheme will be in force up to June 30.

The ad hoc loan facility, named COVID 19 Emergency Credit Line (CECL), is aimed at meeting the temporary liquidity mismatch arising out of the virus outbreak, SBI informed branches.

All standard accounts as of March 16 and till the date of

sanction are eligible. However, standard accounts classified as SMA 1 (overdue between 30 and 60 days) and SMA2 (overdue between 61 and 90 days) are not eligible for availing of this credit facility.

The maximum loan that could be availed under the special scheme is capped at ₹200 crore.

This loan facility shall be made available as fund-based limits only, SBI said. The maximum amount of COVID-19 fall-out is being faced by business establishments. ABHJIT LELE

KAJARIA CERAMICS LIMITED
CIN : L26924HR1985PLC056150
Regd. Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana-122001. Tel.: +91-124-4081281
Email id: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com

NOTICE

(For the kind attention of Shareholders of the Company)
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IIEPF)

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendments there to (the IIEPF Rules).

The IIEPF Rules, inter-alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholder for seven consecutive years or more, in the name of Investor Education and Protection Fund and the shares shall be credited to the Demat Account of the IIEPF Authority, within 30 days of such shares becoming due to be transferred to the IIEPF.

Pursuant to the IIEPF Rules, the unclaimed dividend for the financial year 2012-13 will become due for transfer in favour of the IIEPF Authority on July 3, 2020 and accordingly, the shares are to be transferred to the IIEPF Authority within 30 days i.e. by August 1, 2020.

Complying with the requirements set out in the IIEPF Rules, the Company is also communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IIEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IIEPF on its website at www.kajariaceramics.com. Shareholders are requested to refer to the weblink: https://www.kajariaceramics.com/pdf/unclaimed_dividend/shareholders_details_IIEPF_Rules_2016_2012_13.pdf to verify the details of the shares liable to be transferred to the IIEPF Authority.

Shareholders may kindly note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IIEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IIEPF Authority after following the procedure prescribed by the IIEPF Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IIEPF Authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IIEPF Authority as per the IIEPF Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into demat form and transfer in favour of IIEPF Authority. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in demat form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of IIEPF Authority.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IIEPF Authority pursuant to the IIEPF Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by July 2, 2020, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the IIEPF Rules, transfer the shares to IIEPF Authority in accordance with the IIEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IIEPF Authority pursuant to the IIEPF Rules.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent - MCS Share Transfer Agent Limited, Mr. Ajay Dalal, F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020. Tel.: 011-41406149-52; Email: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

For Kajaria Ceramics Limited
Sd/-

Place: New Delhi
Date: March 20, 2020
R. C. Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

Lenders to seek relaxation on loan repayment

SOMESH JHA
New Delhi, 20 March

Lenders are set to demand a host of relaxations on repayment of loans in a bid to tide over the COVID-19 crisis. These include a 90-day relief in classifying accounts as non-performing assets (NPAs) and deferring installment of term loans.

The management committee of the Indian Banks' Association (IBA) met on Friday and froze a set of demands that it will put up before the Reserve Bank (RBI) and the government. It will make a bid to help the sector and retail and corporate borrowers alike. IBA chief executive officer Sunil Mehta said over phone.

"We are asking for a 90-day extension of the time-line for slippage of a running account - both cash credit and overdraft - into NPA," Mehta said. If borrowers are unable to repay loans within 90 days of the due date, their loan account is classified as NPA by the banks right now. If the IBA's recommendations are accepted, the NPA tag will take six months.

During the intervening period, the accounts will not be classified as a 'stressed asset', technically known as Special Mention

Accounts (SMA)-1 or SMA-2 accounts. SMA-1s are those in which loan repayments have been overdue for a period between 31 and 60 days, while SMA 2 accounts are the ones with a delay of 61-90 days.

Bankers foresee that the COVID-19 impact on the sector will last for six months. This is because businesses across all sectors will run dry on cash and even take extreme measures such as retrenchment to tide over. Banks want easier loan repayment terms, a CEO of a bank, who was present in the meeting, said.

"We have decided to demand deferment of up to six months in term-loan installments with a consequential shift in the repayment period by six months. This will be left to the discretion of bankers. If lenders feel that half of the installment amount can be deferred, as the payment capacity of the borrower has weakened, additional six months can be given. Even full installment sums can be postponed on a case-to-case basis," said Mehta, who was earlier the MD and CEO of PNB.

The COVID-19 has hit several industries in India and the impact is visible across all segments as cities head for a lockdown to contain the spread.

POSSESSION NOTICE (for immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL" and no further step shall be taken by "IIFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Movable Branch	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
1. Sandeep Manakchand Rathod	All that piece and parcel of Flat No. 906, 9th Floor, measuring 680 Sq. Ft., Building "Abhishek Heights co-op. Housing Society comprised on Plot land bearing City Survey No. 26 B, Tika No. 5, situated and lying at Kharkar Ali, Taluka and District Thane.	Rs. 67,07,649/-	09/01/2020	17/03/2020
2. Indu Sandeep Rathod (Prospect No. 770531)				

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Tiera Chambers, 6th & 7th Floor, Maharashtra Lane, Off L.T. Road, Borivali (West), Mumbai-400092. or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Place: Thane Date: 21/03/2020 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

DAMODAR INDUSTRIES LIMITED

Reg. Off.: 19/22 & 27/30, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 013.
Corporate Identity Number: L17110MH1987PLC045575 • Tel: +91 - 022- 6661 0301/2 • Fax: 022- 6661 0308
E-mail: cs@damodargroup.com • www.damodargroup.com

ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF POSTAL BALLOT

It is hereby informed to the members that Pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), and in compliance of Regulation 44(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of the members of the company was sought by way of Postal Ballot, including e-voting. The Company had provided facility of e-voting to the members to enable them to cast their votes electronically or through Postal Ballot from on the Ordinary/Special Resolution proposed in postal Ballot Notice dated February 07, 2020. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on February 07, 2020, has appointed Mr. Vishal N. Manseta, Practising Company Secretary (ACS-25183, CP No. 8981) as the Scrutinizer for conducting the e-voting and Postal Ballot in accordance with the law in fair and transparent manner. The Scrutinizer had carried out the scrutiny of the all Postal Ballot forms and electronic votes received upto 5:00 PM. (IST) on Tuesday, March 17, 2020.

On the basis of the Report of the Scrutinizer, the result of the Postal Ballot (e-voting and voting through Postal Ballot Forms) was declared at the Registered Office of the Company on Wednesday, March 18, 2020 as under:

Item No	Particulars of resolution	Type of Resolution	Consolidated (E-voting and Voting through Postal Ballot Forms)						Whether resolution passed or rejected
			In favour of the Ordinary/Special Resolution(s)			Against the Ordinary/Special Resolution(s)			
			Number of Members	Number of Shares	% of total number of votes cast	Number of Members	Number of Shares	% of total number of votes cast	
1	Issue of Equity shares to Promoters and Promoter Group entities on preferential basis	Special Resolution	105	10,53,338	99.70%	5	3209	0.30%	Passed
2	Shifting of the Registered Office of the Company from One State to Union territory	Special Resolution	111	1,64,56,917	99.95%	18	7,630	0.05%	Passed
3	Appointment of Mr. Ketan K. Patel (DIN: 08607454) as an Independent Director	Ordinary Resolution	127	1,64,64,545	100.00%	2	2	0.00%	Passed

The result of voting through Postal Ballot (including e-voting) alongside with the report of the Scrutinizer are available on the website of the Company www.damodargroup.com and Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Damodar industries Limited
Sd/-
Subodh Kumar Soni
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 18/03/2020

NITIE Mumbai Placements:

Average salary up at Rs 20.88 lakhs per annum

National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai wrapped up the final placements for its 2018-20 batch with a highest international package of Rs. 58.24 LPA and a highest domestic package of Rs. 46.5 LPA. The average salary offered saw an increase as compared to last year and was Rs. 20.88 LPA.

A total of 121 recruiters participated in this year's placement drive offering roles across domains such as Consulting, BFSI, IT/Analytics, Supply Chain and Operations, Sales/Marketing etc. Some of the prominent recruiters that visited the campus were Abbot, Airtel, Amazon, Asian Paints, Axis Bank, Cipla, Cloudtail, Col-Pal, Deloitte, Dr. Reddy's Laboratories, ETLI, EY, Flipkart, GCPL, Google, GSK Pharma, Hexaware, HUL, ICICI Bank, IDFC First, ITC, Johnson & Johnson, KPMM, Maruti Suzuki, Mondelez, Mynta, Nestle, Ola, P&G, Philips, PwC, RPG, RPSG, Uber and many more. Apart from regular recruiters, firms like Ather Energy, Grofers, Hexaware, IDFC First, IKS Healthcare, Kansai Nerolac, L'Oréal, LetsTransport, McKinsey, RBEL, SAP labs, ShapoorjiPallonji Group, Uber, Unacademy, Vardhman Group, ZS Associates visited the campus for the first time. The strong performance by the batch of 2020 carries forward the legacy of the institute and proves that NITIE has a strong presence in the industry.

For further information on NITIE, log on to www.nitie.edu

NOTICE

Declaration of Dividend under Dividend Option of Kotak Tax Saver Fund
Notice is hereby given that Kotak Mahindra Trustee Company Limited; the Trustee to Kotak Mahindra Mutual Fund has approved declaration of dividend under the Dividend Option of Kotak Tax Saver Fund, an open ended equity linked saving scheme with a statutory lock in of 3 years and tax benefits.

The details are as under:

Name of the Scheme	Quantum of dividend per unit #	Record Date	Face Value per Unit	NAV as on March 19, 2020
Kotak Tax Saver Fund - Regular Plan-Dividend Option	Rs.0.325	March 26, 2020	Rs.10	Rs.13.6360

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.
Note: The Payment of Dividend will be subject to deduction of applicable dividend distribution tax.

Pursuant to payment of dividend, the NAVs of the Dividend Option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy if any.

All Unit Holders / Beneficial Owners of the Dividend Option of the scheme, whose names appear in the records of the Registrar, Computer Age Management Services Pvt. Ltd./Depositories as on March 26, 2020 will be eligible to receive the dividend.

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
Investment Manager - Kotak Mahindra Mutual Fund
Sd/-
Nilesh Shah
Managing Director

Mumbai
March 20, 2020
Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:
Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
CIN: U85991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund)
6th Floor, Kotak Towers, Building No. 21, Infinity Park, Off: Western Express Highway, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (East), Mumbai 400097. Phone Number: 022 - 66056825 • Email: mutual@kotak.com • Website: assetmanagement.kotak.com
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e)) District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4)

Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P. L. Kale Guraji Marg, Dadar (West), Mumbai-400026. Date: - 19/03/2020
No.DDR-4/Mum/ deemed conveyance/Notice/ 800 /2020
Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

Public Notice Application No. 28 of 2019

L.R Plaza Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Through Chairman / Secretary CTS No. 698B, S.No. 264, Hissa No. 1/1 & 1/2, Village - Malad, Gen. A.K. Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai - 400 097. Applicant A Versus, 1) M/s. Vivek Builders, 12-A, Laxminarayan Shopping Centre, 1st Floor, Poddar Road, Malad (East), Mumbai - 400 097. 2) Janglyu Shanvar Khanjode (Deceased), The legal heirs of the said deceased are as follows: A) Ladbhai Janglyu Khanjode, B) Raghunath Janglyu Khanjode (Since Deceased) Kanta Raghunath Khanjode (Since Deceased) (Wife of Raghunath Khanjode) The legal heirs of both the deceased being: a) Ravi Raghunath Khanjode, b) Raju Raghunath Khanjode, c) Rama Manoj Vithhe, d) Ramka Ratan Bhanwar, e) Kanna Janglyu Khanjode (Since Deceased) The legal heirs being: a) Soni Kanna Khanjode, b) Rajesh Kanna Khanjode, c) Nitesh Kanna Khanjode, d) Ganesh Kanna Khanjode, e) Dipu Janglyu Khanjode (Since Deceased) Mr. Santosh Babu Khanjode (Legal heir), f) Shanvar Janglyu Khanjode (Since Deceased) All the legal heirs being: a) Jethu Shanvar Khanjode, b) Dipak Shanvar Khanjode, c) Sumitran Khanjode, d) Manjula Shanvar Khanjode, f) Ratna Janglyu Khanjode (Since Deceased) a) Smt. Suresha Ratan Khanjode, b) Dipali Ratan Khanjode, g) Mrs. Yamuna Janglyu Khanjode, h) Devka Janglyu Khanjode, i) Dharmi Laxman Barpe, All Having last known address at - CTS No. 698 B, Survey No. 264, Hissa No. 1/1, 1/2, Gen. A.K. Vaidya Marg, Malad (E), Mumbai-400097. 3) Mr. Pavan Kumar L. Jain (Partner & P.O.A holder of Owners) Having address at - A-602, Lachhman Plaza, Gokuldharam Market, Film City Road, Malad (E), Mumbai-400097. 4) a) Vishnu Kashid, b) Kashi Nath Vishnu Kashid, Kanchia Pada, Goregaon Mulund Link Road, Goregaon / Malad East, Mumbai-400097. 5) M/s. Mackwell Corporation, New Chandrosby, Ground Floor, Bhannashali Lane, Ghatkopar East, Mumbai - 400077. 6) M/s Ashoka Farming Society (a partnership firm) 91-A, Walkeshwar Road, Bombay-6 at 7, Homji Street, Fort, Mumbai. 7) Mr. Vasum R. Ahuja, 22-B, Ganga Building, Durgadhat Third CHS Ltd., 16, Rani Sati Marg, Malad (East), Mumbai-400 097. 8) Additional Collector & Competent Authority (ULCO) 5th Floor, Administrative building, Government Colony, Opp. Chetana College, Bandra (E), Mumbai-400051. 9) Mr. Shivprasad M. Jain (Since Deceased), Through his legal heir, Mr. Vikas Shivprasad Jain, Having address at - A-303, L.R. Plaza CHSL, having situated on Plot having CTS No. 698/B of Village Malad (East), Taluka Borivali, Survey No. 264, Hissa No. 1/1, 1/2, Gen. A.K. Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai - 400097. ... Opponents, and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

CTS No.	Survey & Hissa No.	Claimed Area
698/B, Village Malad, Tal-Borivali	S.No. 264, H.No. 1/1 & 1/2 Village Malad	Land admeasuring 3237.4 sq. meters as specifically set out in the Property Registration Card at Village - Malad, Tal- Borivali.

The hearing in the above case has been fixed on 27.03.2020 at 11.30 a.m. District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Bhandari Co-op.Bank building, 2nd floor, P.L.Kale Guraji Marg, Dadar (West), Mumbai-400026. (Dr. Kishor Mande)

Seal
District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (4) Competent Authority U/S of the MOFA, 1963.

Bank of India
Karwanchiwadi Branch : Karwanchiwadi, Ratnagiri-415639.
Phone : 02352 - 231484
Email : Karwanchiwadi.Ratnagiri@bankofindia.co.in
(A Government of India Undertaking)

APPENDIX - IV POSSESSION NOTICE (See Rule-8(1))
WHEREAS, (For immovable property)
The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 04.12.2019 calling upon the Borrower Mr. Pandharinath Vasudeo Wadkar and Guarantor Mrs. Varsha Machindra Bhatkar to repay Rs. 11,70,512.73 (Rupees Eleven Lakh Seventy Thousand Five Hundred Twelve and Seventy Three Paise only) and further interest thereon within 60 days from the date of the said Notice.
The borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower/guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the immovable property owned by Mr. Pandharinath Vasudeo Wadkar described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rule, 2002 on this 19th day of March of the year 2020.
The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the immovable property and any dealings with the immovable property will be subject to the charge of Bank of India, Karwanchiwadi Branch for an amount of Rs. 11,70,512.73 and further interest thereon from 01.12.2019.
The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
EQM of Flat No. B-8, 2nd Floor in 'B' Wing of 'Rajyog Vihar Building' measuring 542 sq.ft. built up area situated at House No. 2251/B-14, Between Godown Stop And Shantinagar Stop, Kajarghati Road, Nachane, Tal. & Dist. Ratnagiri, owned by Mr. Pandharinath Vasudeo Wadkar. Sd/-
Date : 19.03.2020
Place : Ratnagiri
Authorised Officer
Bank of India

